



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 294 राँची, मंगलवार, 20 मार्च, 2018 (ई०)

---

## राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

-----  
अधिसूचना

15 मार्च 2018

संख्या: 03नि0न0-09/2017 रा0नि0आ0 : 403 .. नगरपालिका निर्वाचन, 2018 के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, देवघर के पत्रांक 578/दिनांक 12 जुलाई, 2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर देवघर जिलान्तर्गत मधुपुर नगर परिषद् (वर्ग-ख) हेतु जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना सं0 743 दिनांक 24 अगस्त 2017 निर्गत किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, देवघर के पत्रांक 255 दिनांक 13 मार्च 2018 द्वारा देवघर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 में होने वाले उप चुनाव के निमित्त जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में श्री अनिल कुमार यादव, भूमि सुधार उप समाहर्ता,

देवघर के स्थान पर श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर को देवघर नगर निगम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 में उप चुनाव हेतु जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया जाता है :-

	जिला का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र /वार्ड	पूर्व में नाम निर्दिष्ट जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का नाम एवं पदनाम	वर्तमान में नाम निर्दिष्ट जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का नाम एवं पदनाम
1	देवघर	देवघर नगर निगम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25	श्री अनिल कुमार यादव, भूमि सुधार उप समाहर्ता, देवघर	श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर

- अधिसूचना संख्या 743 दिनांक 24 अगस्त 2017 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
- उपरोक्त प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह०/-(अस्पष्ट),**

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।

-----